



**SHL/SEC/2022**

**May 09, 2022**

**The Bombay Stock Exchange Limited  
Listing Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building,  
Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, Fort  
Mumbai – 400 001.**

**The Calcutta Stock Exchange Ltd.  
7, Lyons Range  
Kolkata - 700 001 India**

Company Code: **537253**

Dear Sir/Ma'am,

**Sub.: Newspaper clipping regarding publication of Audited Financial Result for 04<sup>th</sup> quarter/ Financial Year 2021-22 ended March 31, 2022.**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published **Audited Financial Result for 04<sup>th</sup> quarter/ Financial Year 2021-22 ended March 31, 2022** in newspapers viz. Pioneer on May 08, 2022 both Hindi & English edition.

In this regard, please find enclosed newspapers clipping of the result published on May 08, 2022 and oblige.

Thanking you,

Yours sincerely,

**For SUNIL HEALTHCARE LIMITED**

**SANTOSH KUMAR SHARMA  
COMPANY SECRETARY**

F6817

Date:09.05.2022

Place: New Delhi

Encl: a/a

**Sunil Healthcare Ltd.**

38E/252-A, Vijay Tower, Opp Panchsheel Park Comm. Complex, New Delhi -110049

T: +91 -11-49435555/00, F: +91 -11-43850087 Email : info@sunilhealthcare.com, Web: www.sunilhealthcare.com

CIN No. : L24302DL1973PLC189662



# FM flags anonymity as 'inherent risk' in use of blockchain, calls for care

**Mumbai:** Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday flagged anonymity as an "inherent risk" in blockchain technology and called for taking precaution in future with a rise in the use of this technology. The finance minister made it clear that using the distributed ledger technology (DLT), which is also called as blockchain, is "absolutely imperative" and the government also supports the use of the same. The minister's remarks come ahead of the launch of the budgetary announcement of central bank digital currency (CBDC) which is based on the blockchain technology itself and is billed as being similar to the paper currency carried in our wallets. "...the anonymity is what ... One unknown element in this whole thing. The anonymity of the person or whoever or the robot is the one which we have to be absolutely readying ourselves as ... a future challenge," Sitharaman said, addressing an NSDL event



here. Sitharaman said the DLT is a beautiful technology which will help in democratisation but flagged anonymity as an "inherent risk" which we need to guard ourselves from. Terming anonymity as a "powerful imponderable" in the whole equation, Sitharaman said, "unless we are able to guard ourselves against that anonymous element which can itself pose an inherent risk, we probably will be exposing ourselves much more than ever we would have imagined." Sitharaman commended capital markets regulator Sebi chief Madhabi Puri Buch, who spoke before her at the same event, for "rightly warning" us about the risk of anonymity, and also for advocating DLTs. Buch said we do not wish to have anonymity in the CBDC, which is supposed to be introduced during the fiscal by

banking regulator RBI. As per the central bank, considerable progress has been made regarding the introduction of the CBDC. Meanwhile, Sitharaman said private cryptocurrency assets like Bitcoins are "fairly well spread" in India. Buch said strengths of DLTs include transparency, real time, infinite divisibility and it being a cost effective medium. Sitharaman said the retail investment journey has transformed in the last two or three years, with new demat account opening zooming to 26 lakh per month in FY22 from 12 lakh in FY21 and just 4 lakh a month in FY20. She said the retail investors act as "shock absorbers" as the foreign portfolio investors have come in and gone as per the global cues. Pointing out to the total USD 4 trillion in custody value held by NSDL, Sitharaman said the buoyancy in retail account opening is a prime reason for the high asset value. **PTI**

## Govt to develop vehicle scrapping facilities within 150 kms from city centre

**New Delhi:** Union minister Nitin Gadkari on Saturday said his aim is to develop at least one automobile scrapping facility within 150 kilometres from each city centre, while asserting that the country has the potential to become a vehicle scrapping hub of the entire South Asian region. Speaking at the Material Recycling Association of India (MRAI) event here, Gadkari said the National Vehicle Scrapping Policy is a key initiative in the Indian transport and sustainability sector, and this will enable the removal of older and unfit vehicles and introduction of new less-polluting vehicles in a phased manner. "My aim is to develop a vehicle scrapping centre within the reach of 150 km from all the city centres," the road transport and highways minister said. Gadkari noted that the road transport and highways ministry has designed the vehicle scrapping policy in a way that allows all types and sizes of investors to come and establish scrapping centres. "Developing a large number of vehicle scrapping centres, we can also develop multiple authorised collection centres of vehicle scrapping units in one city, which will have the authority to deregister a vehicle and issue deposit certificates," he said. Prime Minister Narendra Modi had launched the National Vehicle Scrapping Policy in August last year and had said it will help phase out unfit and polluting vehicles and also promote a circular economy. He had also said that the material recycling sector gives direct and indirect employment to 4 crore people and this number is expected to go up to 5 crore by 2025. At Saturday's event Gadkari said: "India has potential to become a vehicle scrapping hub of the entire South Asian region. We can import a large number of old vehicles from Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Maldives, Nepal and Sri Lanka for scrapping in our country." **PTI**

## Micro-fertiliser makers' body urges Govt not to control prices of micronutrients



**New Delhi:** Micro-fertiliser makers' body IMMA on Saturday hailed the proposed bill on plant nutrition management to regulate the sector, but urged the government not to bring any price control mechanism for micronutrients and speciality products. The Indian Micro-Fertilizers Manufacturers Association (IMMA) said in a statement that it welcomes the draft Integrated Plant Nutrition Management (IPNM) Bill 2022 which is aimed at regulating the micro-fertiliser sector. IMMA said the aim of the proposed bill should be to promote ease of doing business. IMMA, however, urged the government to "control the prices of only those nutrients where subsidy is being provided and not to control the rates of micronutrients and specialised fertilisers". In February, the Department of Fertilisers floated the draft bill and sought comments from all stakeholders. **PTI**

## DCB Bank Q4 net profit jumps to ₹113 cr

**New Delhi:** Private sector lender DCB Bank on Saturday posted a 44.87 per cent rise in its net profit at ₹113 crore for the quarter ended March 2022. The bank had registered a net profit of ₹78 crore in the same quarter a year ago. Total income in the March quarter of fiscal year 2021-22 increased to ₹1,035 crore, as against ₹967 crore in the same quarter of 2020-21, DCB Bank said in a regulatory filing. Net interest income during the quarter rose to ₹380 crore, from ₹311 crore. Bank's asset quality, however, showed a slight impairment from the year-ago period at 4.32 per cent of the gross advances as of March 31, 2022, as against 4.13 per cent by March 2021. However, it improved sequentially from 4.78 per cent at the end of December 2021. In value terms, the gross NPAs stood at ₹1,290 crore in the period under review, as against ₹1,083 crore. On the other hand, the net NPAs or bad loans fell 1.97 per cent (₹573 crore), as against 2.31 per cent (₹594 crore) in the year-ago period. However, the net profit for full year FY2022 decreased by 14.3 per cent to ₹288 crore. **PTI**

## LIC IPO's non-institutional investors' portion fully subscribed on Day 4

**New Delhi:** The portion of LIC's initial public offering earmarked for non-institutional investors, including high net-worth individuals, has been subscribed fully on the fourth day on Saturday. Against the total 2,96,48,427 shares reserved for Non-Institutional Investors (NII), 3,06,73,020 bids were received resulting in subscription of 1.03 times, according to data posted on stock exchanges at 4:36 pm. The overall issue was subscribed 1.59 times. However, the Qualified Institutional Buyer (QIB) portion is yet to be fully subscribed. It is still 0.67 per cent of shares earmarked for the QIB. Retail individual investors bid for 9.57 crore shares as against 6.9 crore set aside for this segment, translating into an oversubscription of 1.38 times. Of the total, the policyholders' portion was subscribed 4.4 times, while that for employees was subscribed 3.4 times. **PTI**

## 'Paper consumption to touch 30 mn tonnes by FY27'

**New Delhi:** Paper consumption in India is likely to witness 6 to 7 per cent annual growth and will reach 30 million tonnes by FY 2026-27, largely driven by emphasis on education and literacy coupled with growth in organised retail, according to industry body IPMA. The paper Industry holds immense potential for growth in India as the per capita consumption globally is one of the lowest, the Indian Paper Manufacturers Association (IPMA) said in a statement. "Around 15 per cent of the world population stays in India but consumes only 5 per cent of the total paper produced in the world," the statement said. The emphasis on education and literacy coupled with growth in organised retail and demand for better quality paper are the major drivers of growth. Moreover, there has been continued demand for quality packaging of FMCG products, pharmaceuticals, textiles, organised retail, booming e-commerce, and other segments, it said. **PTI**

# Indian Bank unveils digital broking solution

**Chennai:** Public sector Indian Bank has unveiled digital broking solution -- E-Broking -- allowing customers to open a demat and trading account facility, in line with the digitalisation mission of the bank, an official said on Saturday. The launch of digital broking solution 'E-Broking' was a strategic step towards complete digitalisation of its offerings to customers, a bank statement said. "E-Broking, an instant and paper-less demat and trading account opening is integrated in the bank's mobile banking application," it said. InDOASIS, the bank's mobile banking application, would offer customers, a seamless experience from demat and trading account opening to discounted broking services backed by research based investment in the secondary market starting from equity, futures, options, and initial public offerings in a single platform, it said.



"This is a key initiative in line with our digitalisation mission to provide all financial products and services to our customers in an affordable manner under one roof," the bank's executive director, Ashwani Kumar said. "This will also help the bank to increase its CASA (current account, savings account)...," he said. The bank said the initiative also enables its customers to invest in the

## HDFC hikes lending rate by 30 bps; loans to become dearer

**New Delhi:** Mortgage lender HDFC Ltd on Saturday announced an increase in its benchmark lending rate by 30 basis points (bps), a move that will make loans dearer for both existing and new borrowers. The move comes just days after several lenders, including ICICI Bank, Bank of Baroda and Bank of India, raised interest rates following the Reserve Bank of India's surprise repo rate hike on Wednesday. "HDFC increases its Retail Prime Lending Rate (RPLR) on housing loans, on which its Adjustable Rate Home Loans (ARHL) are benchmarked, by 30 basis points, with effect from May 9, 2022," the housing finance company said in a statement. The revised rates for new borrowers range between 7 per cent and 7.45 per cent, depending on credit and loan amount. **PTI**

## Go Fashion clocks 73.2% rise in PAT during Q4

**Chennai:** Go Fashion (India) Ltd which owns the popular women's wear brand 'Go Colors' has recorded a 73.2 per cent jump in its profit after tax (PAT) for the quarter ending March 31, 2022. The company reaped Rs 12.3 crore. The city-based company registered a PAT of Rs 7.1 crore during the corresponding quarter previous year. For the financial year ending March 31, 2022, the profit after tax was at Rs 35.6 crore. Total revenue during the quarter under review grew to Rs 116.2 crore from Rs 89.8 crore registered the same period last fiscal. The total revenue for the year ending March 31, 2022 went up to Rs 401.3 crore from Rs 250.7 crore registered year ago. Commenting on the financial performance, the company CEO Gautam Saraogi said, "Our company has shown great resilience in FY '22, and we have come out stronger than ever before." **PTI**

# SJVN bags 90 MW floating solar project worth ₹585 cr

**New Delhi:** State-run SJVN Ltd has bagged a 90 MW floating solar project worth ₹585 crore at Omkareshwar, in Madhya Pradesh. SJVN has bagged 90 MW Floating Solar Project at the rate of ₹3.26/Unit on Build Own and Operate basis in a tender floated by REWA Ultra Mega Solar Ltd (RUMSL), Nand Lal Sharma, Chairman &

Managing Director, SJVN said in a statement. SJVN will develop this project in the country's largest floating solar park at Omkareshwar in Khandwa District of Madhya Pradesh. According to the statement, the cost of developing this project will be approximately ₹585 crore.

After commissioning, the project will generate 219 Million Units in the first year and 5,158 Million Units over a period of 25 years. The Power Purchase Agreement will be signed between RUMSL and SJVN for 25 years. The project shall be commissioned within a period of 15 months from the date of signing of PPA.

"This is our largest floating solar project bagged through tariff-based competitive bidding process. The commissioning of this project is expected to reduce 2,52,737 tonnes of carbon emission. SJVN is actively contributing in turning India into a net-zero carbon emission nation by 2070," Sharma said. With a total portfolio of 31,000MW, SJVN now has 19 solar power projects of around 3.3 GW capacity under operation and different stages of development. **PTI**

### SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

**ICICI Bank** Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	M/s Progen Sas Technologies India Pvt Ltd/ Sandeep Rawat/ Sanjay Rawat/ Pujan Rawat/ Sushil Kaushik/ Pujan Rawat/ Bhawna Kaushik/ A/c No.77705790029	BQ- 58 Shalimar Bagh, Sarawati Vihar, Delhi-110088/ May 04, 2022	December 02, 2021 Rs. 22,09,706/-	Delhi

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : May 07, 2022  
Place: Delhi NCR  
Authorized Officer  
ICICI Bank Limited

### SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

**ICICI Bank** Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Abu Anif/ Raushan Aral-BJA100004461609	Flat No. W-101 +W-102, 1st Floor, Pink Pride The Suites, Khasra No 9, Village Jaisinghpura Bass, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan, Jaipur-302011/ May 04, 2022.	January 12, 2022 Rs. 29,33,394.00/-	Jaipur/ Gurgaon
2.	Sanjay Sharma/ Sunita-LBJA100004688632	Flat No N 101 102, 1st Floor, Pink Pride, Khasra No 9, Village Jaisinghpura Bass, Bhankrota, Tehsil Sangarner, Jaipur, Rajasthan, Jaipur- 303902/ May 04, 2022	November 15, 2021 Rs. 23,77,310.01/-	Jaipur/ Gurgaon/ Mau
3.	Kiran Pal/ Mamma-LBJA100003668530	Flat No W 501 W 502, 5th Floor, Pink Pride, Khasra No 9, Village Jaisinghpura Bass, Bhankrota, Tehsil Sangarner, Jaipur, Rajasthan-303902/ May 04, 2022	November 15, 2021 Rs. 16,46,412.00/-	Jaipur/ Palwal/ Gurgaon

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : May 07, 2022  
Place: Gurgaon  
Authorized Officer  
ICICI Bank Limited

**SUNLOC** **SUNIL HEALTHCARE LIMITED**  
Registered Office  
38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat New Delhi-110049  
Email: info@sunilhealthcare.com; website: www.sunilhealthcare.com  
CIN No. L24302DL1973PLC189662

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2022 (₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Year Ended 31.03.2022	3 Months Ended 31.03.2022	3 Months Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2022	3 Months Ended 31.03.2022	3 Months Ended 31.03.2021
1	Total Income from Operations	11,637.29	3,070.99	2,276.30	11,916.41	3,168.18	2,348.58
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	957.11	550.55	15.20	926.47	566.43	(50.51)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	957.11	550.55	15.20	926.47	566.43	(50.51)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	677.68	386.77	6.87	642.06	401.07	(59.76)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	671.71	380.80	8.85	623.76	386.49	(39.37)
6	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4,453.49	-	-	3,970.01	-	-
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
	(a) Basic (Rs.)	6.61	3.77	0.07	6.26	3.91	(0.58)
	(b) Diluted (Rs.)	6.61	3.77	0.07	6.26	3.91	(0.58)

Notes:  
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and the Company's website (www.sunilhealthcare.com)  
2 As the Company's business fall within a single primary business segment viz. sale of capsule, the disclosure requirement of Indian Accounting Standard (Ind AS-108) "Operating Segments" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder, is not applicable.  
3 The figure for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the published year to date figures for the nine months ended.  
4 The figures for the previous periods have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary, to conform current period classifications.  
5 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 06, 2022.

Place : New Delhi  
Date : 06.05.2022  
Anil Khaitan  
(Chairman cum Managing Director)  
DIN 00759951

**TO WHAM IT MAY CONCERN**  
Under the instructions of my client namely Prashant Tandon son of JB Tandon and the resident of C 263 Golf Apartments Saket, New Delhi, who was the investor (hereinafter referred to as my client) with the below said person, I have to serve upon the following notice:-  
**PUBLIC NOTICE**  
- Beware of Rahul Kumar alias Rahul Malhotra alias Rahul Sahay son of Narottam Kumar Malhotra & resident of FF-44, Top Floor, Mangal Bazaar Road, Laxmi Nagar, Delhi.  
It has been learnt that above mentioned person who has been gone by different names/aliases has been trying to create false perceptions by taking out false PR Information and trying to lure investors to give him money as initial expenses.  
He has also been doing same as a pattern by way of incorporating different companies by the name of EGW Capital, Exh'way Link, Exh'way Finance Academy, Lycia Island, Lycia Nation etc. Kindly note that my client does not accept any liability for any loss or damage that may be suffered or incurred directly or indirectly through correspondence with above said Rahul Kumar alias Rahul Malhotra alias Rahul Sahay.  
My client or any member of his family has nothing to do or any association with above said Rahul Kumar alias Rahul Malhotra alias Rahul Sahay or any of his projects (like- LYCIA Island, LYCIA Nation) and my client hereby disassociate himself with Rahul Kumar alias Rahul Malhotra alias Rahul Sahay.  
Note: A copy of this notice has been retained in my office for record.  
PAWAN KUMAR (KHANNA)  
P/725/2011 Advocate  
Room No. 32, New Bar Complex  
Punjab & Haryana High Court, Chd.  
Mob.- 9781800716, 9648468549



